

एसजी की नकली गेंद पकड़ीं, आरोपी से तीन लाख के माल बरामद

Publish Date: Sun, 02 Feb 2020 04:57 PM (IST)



मेरठ, जेएनएन। एक बार फिर शहर में लाखों रुपये का स्पोर्ट्स का नकली माल बरामद हुआ है। गुरुग्राम से आई टीम ने टीपीनगर थाना पुलिस के साथ एसजी की नकली गेंद का जखीरा बरामद किया। इस दौरान एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह मवाना से माल की सप्लाई देने के लिए आया था। बरामद माल की कीमत तीन लाख रुपये बताई जा रही है।

गुरुग्राम से आए ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्रा.लि. के निदेशक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि उनको काफी समय से एसजी के ब्रांड क्लब की नकली गेंद बनाए जाने की शिकायत मिल रही थी। टीम ने तीन महीने तक रेकी की। पता चला कि मवाना निवासी विनित चौधरी की क्लासिक क्रिकेट के नाम से फैक्ट्री है। वह अपनी फैक्ट्री में बनाई गई गेंदों को एसजी के ब्रांड क्लब के नाम से बेच रहा है। शनिवार को उसे मेरठ में माल की सप्लाई देने के लिए आना था। इसकी जानकारी मिलते ही टीम ने रणनीति बना ली। टीपीनगर थाना पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने स्पोर्ट्स कांप्लेक्स से विनित चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। वह दो लोगों को करीब तीन लाख रुपये का माल देने के लिए आया था। टीम ने माल भी बरामद कर लिया। धीरेंद्र ने बताया कि आरोपित ऑनलाइन भी माल की सप्लाई करता था। इंडिया मार्ट के जरिए देश के कोने-कोने में पकड़ बना रखी थी। उसके पास से एक बिल बुक भी बरामद हुई है।

इसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हैदराबाद और चेन्नई आदि में भी माल की सप्लाई होती थी। आरोपित इस काम को करीब पांच साल से कर रहा था।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/meerut-city-sg-s-fake-ball-caught-goods-worth-three-lakhs-recovered-from-the-accused-19993048.html>